KRN

Registered & Work Office: Plot No.: F-46,47,48,49, EPIP, RIICO Industrial Area, Neemrana – 301705 (RJ)

CIN No.: L29309RJ2017PLC058905

Contact No. 9116629184

Date: 26th August, 2025

To, BSE Ltd

Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street,

Mumbai- 400001, Maharashtra, India

Script Code: 544263

To,

National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, C-I Block G, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai-400051,

Maharashtra, India

Script Symbol: KRN

Subject: Newspaper Advertisements of 8th Annual General Meeting of the Company

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we herewith enclose the copies of the newspaper advertisements, published in Financial Express (English) and in Business Remedies (Hindi) on 26th August, 2025, in connection with 8th Annual General Meeting of the Company scheduled to be held on Tuesday, the 16th September, 2025 at 3:00 PM (IST), through Video Conferencing/ Other Audio Visual Means (OAVM).

Thanking You,

For KRN Heat Exchanger and Refrigeration Limited

Jitendra Kumar Sharma Company Secretary





Bond yield at 5-month high on fiscal slippage worries

THE YIELD ON government bonds continued to rise, with the 10-year yield jumping to a five-month high on Monday, as traders continued to cut as traders continued to cut positions on worries over fis-cal slippage and a weak appetite to meet upcoming supply. The benchmark yield ended at 6.5967%, the high-set level since March 27, after closing at 6.5510% on Friday. The yield had jumped 15 bass points last week and rose 27 hus since the policy.

notifies last week and osee 27 by asince the policy.

The yield has been rising since the last policy as the market has ruled out further rate cuts for the year. Though the rating upgrade brought a slight relef and pushed down yields by around 10 bps on August 14, if reversed on the next day as bonds reacted to



the announcement of GST

rationalisation.
The possibility of no further reduction in rate and fiscal worries over GST slab changes worsened the demand-supply dynamics of the bond market owing to a lack of buyers on the

longer-end. Insurance compalonger-end. Insurance compa-nies and pension funds are absent from the market, adding pressure on duration bonds, said dealers. "The demand-supply and fiscal situations are currently playing out in the market. It

has not seen a demand-supply issue at least in the last 3-4 years on account of FPI inflows and RBI's OMO auctions. However, currently, the FPI demand is muted and the RBI is not able to conduct RBI is not able to conduct bond purchases, given the CRR (cash reserve ratio) cut taking effect from September. We await some sort of communi-cation from the RBI to know if it is comfortable with the cur-rent levels," said the head of fixed income at amutual fund. Rajeev Pawar, head of trea-sury, Ujivan Small Finance Bank, said: "Considering the market sentiment right now.

Bank, said: "Considering the market sentiment right now, yields may touch 6.75%. Going ahead, the market will keenly watch the GDP print, which will give some idea on growth. If it turns out signifi-cantly lower, the market will see a rally and will start pricing in a rate cut."

SECURITIES AND EXCHANGE

enviously. It would be timprudent of regulators to throw this very desirable depth under the bus, "add Mayank Bansal, a Dubai-based hedge fund manager.

The argument is that while countries are looking for ways to expand derivatives markets, india seems to be taking a step back. The US introduced weekly expiries, saw traction and introduced daily expiries. Event is midcay. daily expiries. Even its midcap index, Russell 2000, has now index, Russell 2000, has now daily expiries. Eurostoxx, the European benchmark, has

weekly expiries. Asian indices such as Kospi and Hang Seng and major emerging markets such as Brazil also have

Neelesh V Vernekar, chief executive, IL&FS Infra Asset Management, believes that

such a move will bring discipline and trust in the system.

Daily average cash market trading for August (till 22nd) stood at ₹1.4 lakh crore on the National Stock Exchange. In July, the figures were ₹1.65 lakh crore and ₹21.8 lakh crore, respectively. In the derivatives market, the terrower on the BSE was ₹2.64 lakh crore and ₹23.5 lakh crore and ₹23.5 lakh crore on the NSE.

"A better solution would have been to increase investor

"A better solution would have been to increase investor knowledge and chart out risk appetite, based on retail investor's net worth," another fund manager said.

FROM THE FRONT PAGE

Hopeful of minimal tariff impact: RBI guv

HE ADDED THAT 45% of the sectors are outside the tariff regime but the remaining 55% which are in gems and iewellery, textiles, apparel, shrimpsand other sectors, can see potential impact. "The government on its part is pushing reforms and they are also looking at free trade agreements, some of which have already been in the works for some time...," he added. "We have provided ample liquidity to the banking sector and whatever else is required to support growth of the economy and including those of sectors which are impacted more, if it so happens, we will not be found wanting in our job," Malhotra said. In his address, he also said that the foreign exchange reserves stord at \$595 billion, as per the latest figures, and is sufficient to cover 1.1 months of merchandise imports. He added that the Ribans are for the contraction of the contr and the Household Consump-tion Expenditure Survey (HCRS) shows it's significant enough to be reflected in the CPI basket, said Garg, adding that the aim is to make the index more representative and timely.

E-commerce firms are being asked to share weekly average prices of goods with the government, which will then be cross-checked against a broader dataset to guard against any skews. a broader dataset to guard against any skews.

The additional data sources will be included in the computation of CPI when a new series is rolled out early next year, which will also see a shift in weightages as a recent consumption survey showed that Indians were spending a lower share of their budget on food.

The revamp of the index will also include data on airfeares and streaming-media reares and streaming-media.

sufficient to cover 1.1 months of merchandise imports. He added that the RBI has not "lost sight" of growth. The RBI has been on a rate easing cycle since February and has reduced the reporate by 100 bps. "We will continue to conduct monetary policy with the primary objective of price stability, keeping in view the

objective of growth, he said.

Bailer in his imaugural
address, the governor said that
while the RBI wanted to give
full autonomy to the board of
regulated entities, there are
concern stat they have been
over-burdened.
"Weare trying to rationalise
now these macro policies that
need to be approved by the
boards of the regulated entities
and leave the procedural and
routine matters with the management under the board so agement under the board so that the board gets quality time to deliberate on strategic and

to deinerate on strategic and important matters."

Malhotra also said that the draft guidelines on credit risk and expected credit loss-related framework will be issued soon.

He emphasised on the need for a grievance redressal mech-

for a grievance redressal mech-anism in banks and the RBI. Hessid that RBIs currently reviewing two frameworks— one, the internal ombudsman framework at the level of the regulated entities and the other is the RBI's integrated Ombudsman system. At the bank level ombuds-man system, he said that the RBI has had discussions with the Indian Banks' Association and will issue a draft for com-

the Indian Banks' Association and will issue a draft for consultation. "We might seem to be on opposite sides with the regulated entities trying to accelerate growth and the regulators focusing on stability but we actually have the same objectives. We are in the same team," Malhotra said.

Sebi's longer-tenure plan could affect liquidity, say experts

SECUBITIES AND EXCHANGE
Board of India (Seb)l chairman
Tuhin Kanta Pandey's recent
statement that the markets
regulator is considering
extending the maturity and
tenure of derivative contracts
has taken many by surprise.
Experts believe while the
intention might be noble, the
movewill affect the market liquidity. Long tenures are good
for protecting retail and to
bring discipline, but need not

bring discipline, but need not be in the best interest of the equity markets and cer-tainly not in sync with global

trends, they said.
"India's derivatives market
is looked upon somewhat
enviously. It would be impru-

such as Brazil also have weekly expired.

According to analysts, Sebi's thought process seems to be guided to address problems like excess speculation, manipulation and persistent retail-trader losses.

Asenior official said, "Trust is built in drops and lost in buckets," The feedback loop from the industry will be weighed before changes come toeffect, he added.

Broader statistical

fares and streaming-media prices from online sources, which are dominant in these consumption segments.

Scraping of

e-comm

prices for

CPI begins E-COMMERCE IS A growing share of household spending and the Household Consump-

The changes in sources and items in the new CPI is one of

items in the new CPI is one of several major statistical upgrades planned in the next two years including a new CDP series with an updated base year of 2022-23, Gargsaid. Earlier this year, it launched an investment survey and more frequent employment reports, which some econo-mists have questioned for their accuracy. Garg said the govern-ment has nearly doubled the ment has nearly doubled the households surveyed for

(This is an Advertisement for information purpose only and not for publication or Distributio or release directly or indirectly outside India and is not an offer document or announcement



KILITCH DRUGS (INDIA) LIMITED

Company was originally incorporated in the name and style of "Killich Drugs (India) Limited" at Bornba arashtra as a public limited company under the provision of Companies Act, 1955 pursuant to a Certificate proporation dated May 12, 1992 Issued by the Registers of Companies, Maharashtra. The Corporate identification their of our Company is L24239MH1992PL0066716. For further details of our Company, Please refer to the chapt "General Information" on Page No. 4 of the Letter of Office.

Registered Office: C-301/2 MIDC. Tric Industrial Area, Pawane Village, Thane, Maharashtra, India, 400705.

Cerporate Office: 37. Ujagar Industrial Estate, W. T. Patil Marg, Deonar, Mumbai, Maharashtra, India, 400088.

Contact Person: Pushpa Nyoupane, Company Serretary and Compliance Officer:

Tel: + 022 E114/100; E-mail: pushpanyoupane/skitch.com; Website: https://kilich.com

PROMOTERS OF OUR COMPANY: MUKUND MEHTA AND KILITCH COMPANY (PHARMA) LIMITED FOR PRIVATE CIRCULATION TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF KILITCH DRUGS (INDIA), LIMITED ("COMPANY" OR "ISSUER") ONLY WE HERBY CONFIRM THAT NONE OF OUR PROMOTERS OR DIRECTORS IS A WILPUL DEFAULTER AS ON DATE OF THIS LETTER OF OFFER

3,98,463* FULLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH OF OUR COMPAN TS EQUITY SHARES") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 357.00 PER RIGHTS EQUITY SHARE (INCLUDING PERJALIAN OF \$ 347.00 PER BIRTH'S EQUITY SHARE; PISSUE PRICE'S AGGREGATING TO \$ 4.992.51 LAKHS* ON UNIGHTS BASS TO THE ELBIGALE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 2 TWO) RICHIT OLD THE SHAREHOLDERS ON THE RECORD OF 2 TWO) RICHIT OLD THE SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE; THE SHAREHOLDERS ON THE SHAREHOLDERS ON THE SHAREHOLDERS ON THE SHAREHOLDERS.

BASIS OF ALLOTMENT

he Board of Directors of our Company would like to thank all its shareholders and investors for their response to the Issue, while bened for subscription on Wednesday, July 23, 2023 and closed on Thursday, August 21, 2025 and the last date for On-Mark enunciation of Rights Entitlements was Monday, August 18, 2025.

Category	No. of valid applications received	No. of Rights Equity Shares accepted and allotted against Entitlements (A)	No. of Rights Equity Shares accepted and allotted against Additional Rights Equity Shares applied (B)	Total No. of Rights Equity Shares accepted and allotted (A+B)	
Eligible Equity Shareholders	1,860	2,38,216	8,51,836	10,90,052	
Renouncees*	160	31,298	2,77,113	3,08,411	
Total	2,020	2,69,514	11,28,949	13,98,463	

"The (identified based on DP ID and Client ID) whose names did not appear on the list of Eligible Equity Shareholders as on the Record Date, who held the Rights Entitlements ("RE") as on the Issue Closing Date and have applied for the Issue are considere

Category	Application Received		Rights Equity Shares Applied for			Rights Equity Shares allotted		
	Number	%	Number	Value (₹)	%	Number	Value (₹)	%
Eligible Equity Shareholders	2,256	93.38%	13,61,582	48,60,84,774.00	81.53%	10,90,052	38,91,48,564	77.95%
Renounces	160	6.62%	3,08,411	11,01,02,727.00	18.47%	3,08,411	11,01,02,727	22.05%
Total	2416	100.00%	16,69,993	59,61,87,501.00	100.00%	13,98,463	4,99,251,291	100.00%

The instructions for unblocking of funds were issued to Self-Certified Syndicate Banks; PSCSB4*] and the list were filed with to this Sec and ISS on August 25, 2005. The Disposted of allotherst advise; cum sublocking investors, as applicable, will be done after execution the corporate action for credit of Equity Starse into the reaccutor flow societies allottens on or work adjust 25, 2005. The funding in light year—in Equity Starse is to severe the second of the societies of the second o

usscammer clause of size: on page oo or the cated or one.

SISSCLAMBER CLAUSE OF NSE (THE DESIGNATION STORK SCHANGE): It is to be distinctly understood that the permission by NSE should not in any way be determed are construed that the Littler of Office has been cleared or approved by NSE, not doe one of the corrections or completeness of any of the contents of the Letter of Office, investors are advised to refer to the Letter of the united of the "Office have been supported by NSE one of the other of Office."

REGISTRAR TO THE ISSUE

MUFG MUFG MUFG Inform

MUFG Intime India Private Limited (Formerly Link intime India Private Limited (Formerly Link intime India Private Limited (Formerly Link intime India Private Limited (West), Mumbai-400 083, Maharashtra, India Contact Person : Shanti Gopplakrishnan; Tel. No.: +9181081 14949;

For Kilitch Drugs (India) Limited On behalf of the Board of Directors Company Secretary & Compliance Officer

Rajiv Anand assumes charges as IndusInd Bank MD & CEO

INDUSIND BANK ON Monday INDUSIND BANK ON Monday said Rajiv Anand has taken charge as MD & CEO of the bank. Earlier this month, the bank's board had approved the appointment of Anand for three years with effect from August 25, IndusInd Bank said in a regulatory filing.

On RBI's directions, the board had constituted a comboard had constituted a com-

board had constituted a com-

came to light.

Chairman Sunil Mehta said the board looks forward to working closely with Anand and the management team.

The oversight panel was formed after the then MD and CEO Sumant Kathpalia seeigned on April 20 CEO Sumant Kathpalia resigned on April 29. —PTI

Precision / PRECISION ELECTRONICS LIMITED

CIN: L32104DL1979PLC009590

Registered Office: D-1081, New Friends Colony, New Delhi - 110 025

E-mail: cs@pel-india.in; Telephone: +91 (120) 2551556/1557

OTICE AND INFORMATION REGARDING THE 45th ANNUAL GENERAL MEETING OF PRECISION ELECTRONICS LIMITED

Sending of Annual Report:

Members may note that he Annual Report of the Company for the Francisco Members may note that he Annual Report of the Company for the Francisco Members may note that he Annual Report of the Company for the Francisco Members whose small addresses are nightered with the Company or Regain and Share Transfer Apport (FRTA) or white respective Depository Particip (TDP*), a accordance with MLC Ancounts for General Meetings and SEB Crust Concernal Meetings, in a letter providing the vection of the Annual Report (FRTA) or the Annual Report (FRTA) or the Report of Members of Members and Members

Manner of Casting vote through e-voting:

manner of Lasking with companie Pedding.

Config. (1997) A service of the State of Lasking State of Lask

For Precision Electronics Limite

Place: Neemrana Date: 25th August, 2025

Sd/-(Punit A. Bajaj) Company Secretary and Compliance Officer Membership No.: FCS 13366



KRN HEAT EXCHANGER AND REFRIGERATION LIMITED Registered & Work Office: Plot No.: F-46,47,48,49, EPIP, RIICO Industrial Area, Neemrana-301705 (RJ)

CIN No.: L29309RJ2017PLC058905, Ph No.:9116629184
Email: Info@krnheatexchanger.com; Website: www.krnheatexchanger.com **PUBLIC NOTICE OF 8TH ANNUAL GENERAL MEETING**

AND E-VOTING INFORMATION Notice is hereby given that the 8th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of KRN Heat Exchanger and Refrigeration Limited ("the Company") will be held on Tuesday, the 16th September, 2023 at 03:00 PM (IST) through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAM"), in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (the 'Act') and the Rules made thereunder and the provision of SEBI (Listing Obligations and Act) and the Kules made thereunder and the provision of Selsi (Listing Colligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Esting Regulation") read with the applicable Circulars on the matter issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Securities and Exchange Board of India (SEBI) without the physical presence of Members at a common version to transact the business set out in the Notice dated 18th August, 2025, convening that and AGM. Members attending the AGM through VC/ OAVM shall be reckoned for the purpose of quorum

under Section 103 of the Act. under Section 103 or the Act.
In Compliance with the aforesaid circulars, an electronic copy of the Notice of AGM and Annual Report of the Company for the Financial Year 2024-25 is sent to all the Members of the Company whose email addresses are registered with the Company/ Depository Participants (DPs).

Further in accordance with Regulation 31 (1) (b) of Listing Regulations, A letter providing the web link for accessing the Annual report and Notice of AGM, will be sent to those shareholders who have not registered their email addresses with the Company/ Registrar and Share Transfer Agent (RTA)/ Depository Participants (DPs).

The Notice of AGM and Annual Report are also available on the website of the Company at The Notice of Normann Annual Report are also available on the Website of the Company at www.krnbeatschanger.com, website of Stock Exchanges Le, National Stock Exchange of India Ltd. (NSE) at www.nseindia.com and on the website of National Securities Depository Ltd. (NSOL) at www.nseindia.com and on the website of National Securities Depository Ltd. (NSOL) at www.bseindia.com and on the website of National Securities Depository Ltd. (NSOL) at www.bseindia.com and on the website of National Securities Depository Ltd. (NSOL) at www.bseindia.com and on the website of National Securities Depository Ltd. (NSOL) at www.bseindia.com and on the website of National Securities Depository Ltd. (NSOL) at www.bseindia.com and on the website of National Securities Depository Ltd. (NSOL) at www.bseindia.com and on the website of National Securities Depository Ltd. (NSOL) at www.bseindia.com and on the website of National Securities Depository Ltd. (NSOL) at www.bseindia.com and on the website of National Securities Depository Ltd. (NSOL) at www.bseindia.com and on the website of National Securities Depository Ltd. (NSOL) at www.bseindia.com and on the website of National Securities Depository Ltd. (NSOL) at www.bseindia.com and on the website of National Securities Depository Ltd. (NSOL) at www.bseindia.com and on the website of National Securities Depository Ltd. (NSOL) at www.bseindia.com and www.bsei and e-Voting at the AGM facility ("e-Voting facility") to all its members whose names appear in the register of members as on cut-off date i.e., Tuesday, the 9th September, 2025 to cast their votes on all the resolutions set out in the Notice of the AGM. Detailed procedure for remote e-Voting e-Voting and participation in AGM through VC/ DAVM by the Members has been provided in the Notice of the AGM. The company has entered into an arrangement with NSDL to provide remote e-voting and E-voting during the AGM. The remote e-Voting will commence on Saturday, the 13th September, 2025 at 9:00 A.M. (157) and ends on Monday, the 15th September, 2025 at 9:00 A.M. (157) and ends on Noting with 15th September, 2025 at 9:00 A.M. (157). The remote e-Voting facility shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Only those Members who will be present in the AGM through VC/OAVM facility and have not cast their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting in the AGM and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change in subsequently. The voting rights of the Members shall be in proportion to their shares in the paid-up share

capital of the Company as on the cut -off date. Lapinar on the Company as on the Cut-of under.

The manner of remote e-Voting and e-Voting at the AGM by the members is provided in the Notice of AGM. The Member who have cast their vote by remote e-Voting, prior to the date of AGM, will be eligible to attend the AGM through VC/OAVM but shall not be eligible to vote again.

Any person, who acquires Shares and becomes Member of the Company after the dispatch of Notice and who holds Equity Shares as on cut-off date, may generate the Login ID and Password by following the procedure for e-Volting as mentioned in the Notice of AGM. However, if the member is already registered for e-Voting, then such Member can use the existing password to login and

Members whose email ID is not registered, may refer "Registration of email ID" as detailed in the

In case of any query regarding e-Voting or technical assistance for VC/OAVM participation, members may contact Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, NSDL on toll free no. 022-4886 7000 or send a request to NSDL at evoting@nsdl.com or the Company Secretary of the Company at investors@krnheatexchanger.com.

By order of the Board of Directors For KRN Heat Exchanger and Refrigeration Limited SD/-Jitendra Kumar Sharma Company Secretary

epaper.financialexpress.com

New Delhi

डैनोन इंडिया और एफएसएसएआई ने मिलकर मुंबई में लॉन्च किया भारत का पहला महिला-स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब 'मौली'

डैनोन इंडिया के सहयोग से एफएसएसएआई ने मुंबई में भारत के पहले महिला-स्वच्छ फूड हब 'मौली' का उद्घाटन किया। इस हब का औपचारिक उद्घाटन केंद्रीय मंत्री पीयष गोयल ने किया। एफएसएसएआई के ईट राइट इंडिया अभियान के तहत शुरू की गई यह ऐतिहासिक पहल खाद्य सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण और सतत उद्यमिता को एक साथ लाती है।

यह केंद्र पूरी तरह से स्वयं सहायता समृहों (एसएचजी) की महिलाओं द्वारा संचालित है, जिन्होंने FoSTaC (खाद्य सरक्षा



प्रशिक्षण और प्रमाणन) प्राप्त किया है। स्वच्छता, सुरक्षा और व्यावसायिक संचालन के प्रशिक्षण से सुसज्जित, ये महिलाएं अब खाद्य सुरक्षा और उपभोक्ता विश्वास सनिश्चित करते हुए स्वच्छ और उच्च गुणवत्ता वाला स्ट्रीट फूड वितरित कर रही हैं। इस पहल पर डैनोन इंडिया के प्रबंध निदेशक, शशि

रंजन ने कहा कि डैनोन में, हम अधिक से अधिक लोगों तक भोजन के माध्यम से स्वास्थ्य पहुंचने के अपने मिशन के अनुरूप लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालने के प्रतिबद्ध एफएसएसएआई की 'ईट राइट' पहल के साथ अपनी साझेदारी

महिलाओं को आवश्यक संसाधनों और कौशल से लैस करके, हम उन्हें उच्च खाद्य सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करते हुए स्थायी आजीविका बनाने में सक्षम बना रहे हैं। यह सार्थक रोज़गार के अवसर पैदा करके और भारत के आर्थिक विकास में उनकी भूमिका को मज़बूत करके सामाजिक प्रभाव और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के प्रति डैनोन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। साथ मिलकर, हम स्वस्थ समुदाये और एक उज्जवल भविष्य का

सुरक्षित खाद्य क्षेत्र बनाना और अपने समुदायों में बेहतर स्वच्छता को बढ़ावा देना है।

बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) के भारतीय शेयर बाजार में इस हफ्ते सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। मुताबिक, 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 99,358 रुपए सोने की कीमतों में 600 रुपए प्रति 10 ग्राम से अधिक की है, जबकि एक हफ्ते पहले इसी दिन यह 1.00.023 रुपए थी. गिरावट हुई है और चांदी का जो कि सोने की कीमत में 665 भाव 1,000 रुपए प्रति किलो रुपए की कमजोरी को दर्शाता है। MANOMAY मनोमय टेक्स इंडिया लिमिटेड

बिजनेस रेमेडीज/ नई दिल्ली/ आईएएनएस

सोना और चांदी की कीमतों में गिरावट

से अधिक कम हुआ है।

जानकारी के अनुसार इंडिया

ानश्चर श्वरकार होते हैं। प्रेर्वाची व्यक्ति का स्थान प्रति हैं। प्रति हैं। प्रति का स्थान हैं। प्रति हैं। प्रति के स्थान हैं।

ह आम बैठक (एजीएम) के मुख्य विवरण इस प्रकार है. -				
विवरण	जनवरी			
कट ऑफ लिव	10-09-2025			
रिमोट ई-वोटिंग प्रारंभ तिवि	14-09-2025			
रिमोट ई-वोटिंग प्रारंभ रामध	सुबाह ९.०० बजे (भारतीय मानक समय)			
रिमोट ई-वोटिंग समानि तिथि	16-09-2025			
रिमोट ई-वोटिंग समाति समय	शाम ५:०० बले (भारतीय मानक समय)			
অর্থিক মান বীতক কী বিবি	17-09-2025			
वर्षिक आम बैठक का समय	दोपहर 1:00 को (भारतीय मानक समय)			
वर्षिक आम बैठक का स्थान	३२, हीत पहा गार्केट, पुर रोड, शैलवाइ-३११००१ (राजस्थान) भारत			

यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 25 सितम्बर से

बिजनेस रेमेडीज/ लखनऊ/ आईएएनएस

ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट में होने वाले यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के तीसरे संस्करण की तैयारी जोरों पर है।

इस बार का शो सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि राज्य सरकार के विभिन्न विभाग भी इसमें अपनी उपलब्धियों, परियोजनाओं का पूरा लेखा-जोखा पेश करेंगे। यह शो 25 से 29 सितंबर तक होगा।

७ वैभव ग्लोबल लिमिटेड

भौतिक शेयरों के हस्तांतरण अनरोध पनः दाखिल करने के लिए विशेष विंडो

• यह सूचना अंग्रेजी प्रारूप का रूपांतरण है

राजपताना बायोडीजल लिमिटेड

CIN: U74999RJ2016PLC056359, फ्रोन नंबरः +91-960 जीकृत कार्यास्यः जयपुरिया मेशन, पॉच बारी, एम.आई. रोड, जयपुर - 302

९वीं वार्षिक आम बैठक और दूरस्थ ई-वोटिंग की सूचना

KG PETROCHEM LIMITED

CIN: L24117RJ1980PLC001999
Regd. Office: C-171, Road No. 93, VM fras, Jaipur-302013, Rajasthan Corporate Office: 6th Floor, No.802, Monarch Building, Amrapail Marg, Vaishall Nagar, Jaipur-302021 Raj. E-mail: manish@bharuk biz; Website: www.kgjertochem.com; Contact No. 9953340261

NOTICE OF 45° ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE OF 45° ANNUAL GENERAL MEETING

TO MISSION AND A CONTING INFORMATION

Of the Notice of ADM (IST)

The 46th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of KR Petrochem Ltd ("The Company") will be held on Thursday, Spelamber 16, 1923 at 12:80 PM. (IST)

Building Armapali Marky Johnahi Magnar, Jaigur-3/2024, Register of the Notice of ADM and the Amenda Report for the francisoral year 2024-2025 who been sent to all the hearthcriders on the force of London and Administration of the Notice of ADM and the Amenda Report for the francisoral year 2024-2025 who been sent to all the hearthcriders on Administration (Ist of London and Annual Report to the shareholders has been dispersed with the Company Depository Participation (Ist of London and Annual Report to the shareholders has been dispersed with the Company and Annual Report to the shareholders has been dispersed with the Company and the Company Secretaries of India, the Shareholders has provided with the Solity to set their colors and resolutions set of the in the Notice of ADM using pectation (is with a color of the Company and the Company and

9.00 AM. (ST) and ends on investmency, organization.

The mortice evering table disabled harmatics in seath of the first memorial evering table disabled harmatics. Shareholders may note that.

Once the ved on a relationship of the shareholder, the same shall not be concerned to the shareholders and the shareholders are selectionship.

If the facility for voting will also be made available during the AGM and brook enteractionship experient the AGM, which we not cast their vote on the resolutions through remote evening, shall be eligible to vote during the AGM. All the disable through the AGM will be the shareholder present the AGM, which we have cast their vote signar, and.

Only person which are man is necorded in the neglister of lamenfolder or in the date in the neglister of lamenfolder or in the date in Christopher of the shareholders of the through the shareholders of the control of the neglister of lamenfolder or in the date in Christopher of the control of the neglister of lamenfolder or in the date in Christopher of the Company and become member of the company after the disposite of National AGM and holding shares as on the cut-off date is. Thrandoxy, September 11, 2025 may obtain user of and password by Agment and the holding shares as on the cut-off date is. Thrandoxy, September 11, 2025 may obtain user of and password or your part of the company after the delices where of the company after the first password by the company after the delices where disposition is not of under the vederal control of the company after the first password by the company after the first passwo

के माध्यम से. हमारा लक्ष्य निर्माण कर रहे हैं। सीआरआई पंप्स को पीएम-कुसुम योजना के तहत महाराष्ट्र में 10,714 सोलर पंपिंग सिस्टम की स्थापना के लिए 320 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला

बिज़नेस रेमेडीज/जयपर

सीआरआई सोलर को जो सीआरआई पंप्स का एक प्रभाग नवीकरणीय ऊर्जा-संचालित जल समाधानों में अग्रणी है, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एमएसईडीसीएल) द्वारा 'मैगेल त्याला सौर कृषि पंप' योजना के तहत 320 करो? रुपये मूल्य के 3 एचपी, 5 एचपी और 7.5 प्चपी क्षमता के 10,714 ऑफ-ग्रिंड डीसी सौर फोटोवोल्टिक जल पॉपेंग सिस्टम (एसपीडब्ल्यूपीएस) के डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग के लिए लेटर ऑफ कमाशानगं का लिए लेटर जान एम्पैनलमेंट (एलओई) प्रदान किया गया है। एसपीडब्ल्यूपीएस

बिजनेस रेमेडीज/बेंगलुरु

अमेजन इंडिया ने आज अमेजन डॉट इन पर गणेश चतुर्थी के लिए विशेष स्टोर लॉन्च किया

है, जिसमें ग्राहकों को पर्यावरण-

अनकल और पारंपरिक त्योहार

संबंधी वस्तुओं का व्यापक संग्रह मिलेगा। स्टोर में मिझी की

गणेश प्रतिमाएँ, हस्तिनिर्मित सजावट, पूजा सामग्री, फैशन परिधान, मिठाइयाँ और घर सजावट की वस्तुएँ शामिल हैं।

ग्राहक अमेज़न के एआई-

संचालित शॉपिंग असिस्टेंट

रुफुस की मदद से व्यक्तिगत

सङ्गाव प्राप्त कर सकते हैं और

अपने शॉपिंग अनुभव को और आसान बना सकते हैं। इस

बिजनेस रेमेडीज

13 अगस्त 2025 को एक

अधिसूचना जारी कर गैर अधिसूचना जारी कर गैर अधिसूचित कृषि जिंसों एवं खाद्य पदार्थों पर् मण्डियों में

क्रय-विक्रय करने पर यूजर चार्ज संधारित किया गया है।

एक मण्डी से दूसरी मण्डी में विऋय या खरीद या कृषि जिंस

ले जाने पर यूजर चार्ज दोबारा लगगा। यूजर चार्ज को क्रेता व विक्रेता को अपनी लागत में जोड़ना होगा। इससे उपभोक्ता पर

कार कमटा न राजस्थान म हो रही भारी बारिश के कारण मण्डियों में पानी भरने और किसान का माल भीगने को देखते हुए सोमवार 25 अगस्त

दखत हुए सामवार 25 अगस्त 2025 को मण्डियों के व्यापारियों को जो यूजर चार्ज से प्रभावित है उन व्यापारियों/ मण्डियों को छोड़कर निर्देश दिये

गये हैं कि मण्डियां खोलें तथा किसान का माल भीगने नहीं दें।

यदि किसी कारणवश किसान

का माल भीग गया है तो उसे

मण्डी में सुखाने की व्यवस्था

करें। जां तक संभव हो किसान

कर। जा तक जान जा... द्वारा मण्डी में लागयी गयी कृषि

दोहरा भार पड़ेगा। कोर कमेटी ने राजस्थान में



सीआरआई के अध्यक्ष, जी. सुंदरराजन

में एक इनबिल्ट आईओटी-सक्षम रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम (आरएमएस) है और यह मरम्मत और रखरखाव को कवर करने वाली 5 साल की वारंटी के साथ आता है।

सीआरआई के अध्यक्ष, जी. सुंदरराजन ने कहा, एमएसईडीसीएल द्वारा 320 करोड़ रूपए मूल्य का यह

अमेज़न इंडिया ने गणेश चतुर्थी के लिए लॉन्च किया विशेष स्टोर

पर्यावरण-अनुकूल और पारंपरिक उत्पाद होंगे उपलब्ध

स्टोर में त्योहारों की सजावट.

पूजा सामग्री और मिठाइयों पर

80 प्रतिशत तक की छट

विशेष रूप से, पर्यावरण-

अनुकूल मिट्टी की गणेश प्रतिमाओं और डीआईवाई

किट्स को ग्राहकों के बीच

आकर्षण का केंद्र बनाया गया

है। त्योहार की तैयारियों को

सहज बनाने के लिए. अमेजन

प्राइम सदस्य लाखों उत्पादों पर मफ्त और तेज डिलीवरी का

राज्य सरकार द्वारा मण्डियों में कृषि जिंस के क्रय-विक्रय

amazon.in

उपलब्धि से कहीं अधिक है यह भारत के किसानों को स्वच्छ, विश्वसनीय और टिकाऊ जल समाधानों से सशक्त बनाने की दिशा में एक मिशन-संचालित कदम है। हमें गर्व है कि हमें नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने में तेजी लाने और महाराष्ट्र की कृषि अर्थव्यवस्था के केंद्र में भरोसेमंद सिंचाई प्रदान करने में इसके साथ सहयोग करने का अवसर मिला है। इस पहल से अल्पसेवित और ऑफ-ग्रिड ग्रामीण क्षेत्रों में विश्वसनीय जल उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी, जिससे पारंपरिक ऊर्जा पर निर्भरता में उल्लेखनीय कमी आएगी, सिंचाई विश्वसनीयता बढ़ेगी और कृषि

लाभ उठा सकते हैं। वहीं

अमेज़न पे ग्राहकों को फ्लाइट

होटल और दैनिक खरीदारी प

विशेष कैशबैक और डिस्काउं

ऑफर्स भी प्रदान कर रहा है

इस अवसर पर अमेज़न इंडिय

के प्रवक्ता ने कहा, कि गणेश

चतुर्थी भारत के सबसे प्रिय त्योहारों में से एक है। हमारा

उद्देश्य ग्राहकों को टिकाऊ

किफायती और भरोसेमंद

त्योहार को और खास बनाना है

पैनलीकरण एक व्यावसायिक

उत्पादकता तथा ग्रामीण समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। परियोजना के क्रियान्वयन की शुरुआत एमएसईडीसीएल की निर्धारित समयसीमा के अनसार होगा जिसमें समय पर, कुशल और उच्च गुणवत्तापूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सी.आर.आई. सोलर को बडे पैमाने पर सौर तैनाती में अपनी सिद्ध विशेषज्ञता का लाभ मिलेगा। सीआरआई भारत में ऊर्जा कुशल और टिकाऊ जल अवसंरचना की दिशा में बदलाव लाने के लिए प्रयासरत है, तथा इसने देश भर में 1,81000 से अधिक आईओटी-सक्षम स्मार्ट मॉनिटरिंग समाधानों का समर्थन प्राप्त सौर पम्पिंग प्रणालियां स्थापित की हैं।

रि केआरएन हीट एक्सचेंजर और रेफ्रिजरेशन लिमिटेड पंजीकृत एवं कार्य कार्यालयः प्लॉट नंबरः एफ-46,47,48,49, ईपीआईपी,

रीको औद्योगिक क्षेत्र, नीमराना-301705 (राज.) सीआईएन नंबर: L29309RJ2017PLC058905, फोन नंबर:9116629184

8वीं वार्षिक आम बैठक और ई-वोटिंग सूचना की सार्वजनिक सूचना

तब् द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के लागू प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों और सेबी (सूचीबद्धता व्ययत्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, २०१६ ('सूचीबद्धता विनियमन') के प्रावधानों संपठित कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) और भारतीय प्रतिभूति और विन्निय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी किए गए मामले पर लागू परिपत्रों के अनुपालन में केआरएन हीट एक्सचेंजर एंड रेफ़िजरेशन लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों की 8वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) एक सामान्य स्थल पर सबस्यों की मीरिक उपस्थिति के बिना, 18 अगस्त, 2026 के नोटिस जिसमें उक्त एजीएम बुलाई गई थीं, में निवारित व्यवसाय का संचालन करने के लिए मंगलवार, 16 सितंबर, 2025 को अपराह्न 03:00 बजे (आईएसटी) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/ अन्य ओडियो विद्युअल माध्यमी ('ओएवीएम') के माध्यम से आयोजित की जाएगी। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सस्स्यों को अधिनयम की धारा 103 के तहत कोरम के प्रयोजन के

इलेक्टॉनिक प्रति कंपनी के उन सभी सबस्यों को भेजी जाती है जिनके ईमेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (डीपी) के पास

(आरटीए) / डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (डीपी) के साथ अपने ईमेल पते पंजीकत नहीं किए हैं।

वेबसाइट यांबी बेहाबल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेंड (एकएसई) की वेबसाइट <u>www.nscindia.com</u> और बीरसई लिमिटेंड की वेबसाइट <u>www.bscindia.com</u> पर और बेहाबल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेंड (एकएसडीएल) की वेबसाइट <u>www.evoting.nsdl.com</u> पर भी उपलब्ध है, जो कंपनी द्वारा दूरस्थ ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए नियुक्त एजेंसी हैं। कंपनी अपने सभी सदस्यों को दूरस्थ ई-वोटिंग और एजीएम सुविधा ('ई-वोटिंग सुविधा') पर ई-वोटिंग प्रदान कर रही है, जिनके नाम कट-ऑफ तिथि यानी मंगलवार, 9 सितंबर, 2025 को सक्स्यों के रजिस्टर में विखाई बेते हैं, तािक वे एजीएम

वार्षिक आम बैठक की सूचना में दी गई हैं। कंपनी ने वार्षिक आम बैठक के दौरान रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग प्रदान करने के लिए एनएसडीएल के साथ एक समझौता किया है। रिमोट ई-वोटिंग शनिवार, 13 सितंबर, 2025 को सुबह 9:00 बजे (भारतीय मानक रामय) से शुरू होणी और सोमयार, 15 सितंबर, 2025 को शाम 5:00 बजे (भारतीय मानक रामय) तक चलेगी। इसके बाद, मतदान के लिए एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग सुविधा को बंद कर दिया जाएगा।

केवल वे सक्स्य जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होंगे और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाला है और उन्हें ऐसा करने से अन्यथा प्रतिबंधित नहीं किया गया है, वे एजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम से वोट करने के पात्र होंगे और एक बार सक्स्य द्वारा प्रस्ताव पर वोट डालने के बाद, सक्स्य को बाद में इसे बदलने की

रिमोट ई-वोटिंग और सक्स्यों द्वारा एजीएम में ई-वोटिंग का तरीका एजीएम की सूचना में प्रदान किया गया है। वे सक्स्य जिन्होंने एजीएम की तिथि से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है. वे वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के

तिथि तक इक्विटी शेयर हैं, वर्षिक आम बैठक की सूचना में उल्लिखत ई-वोटिंग प्रक्रिया का पालन करके लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट कर सकता है। हालाँकि, यदि सदस्य पहले से ही ई-वोटिंग के लिए पंजीकत है, तो ऐसा सदस्य मौजदा पासवर्ड

ई-वोटिंग या वीसी/ओएवीएम में भागीवारी के लिए तकनीकी सहायता से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए, सबस्य एनएसडीएल की वरिष्ठ

प्रबंधक सुन्नी पाइची उनात्रे से टोल-फी बंबर 022-4886 7000 पर संपर्क कर सकते हैं वा एवएसडीएल को evoting@nsdl.com पर वा कंपनी के कंपनी सीयव को investors@krnheatexchanger.com पर अनुरोध केन सकते हैं।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार केआरएन हीट एक्सचेंजर एंड रेफिजरेशन लिमिटेड के लिए

जितेंद्र कुमार शर्मा

ईमेल: Info@krnheatexchanger.com, वेबसाइट: www.krnheatexchanger.com

उपर्युक्त परिपत्रों के अनुपालन में, वितीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी की एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट की एक

इसके अलावा, लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 31 (1) (बी) के अनुसार, वार्षिक रिपोर्ट और एजीएम की सूचना तक पहुंचने के लिए बेब लिंक प्रसान करने वाला एक पत्र उन श्रेयरधारकों को भेजा जाएगा जिन्होंने कंपनी / रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांतफर एजेंट

कोई भी व्यक्ति, जो सूचना प्रेषित होने के बाद शेयर प्राप्त करता है और कंपनी का सदस्य बनता है और जिसके पास कट-ऑफ

कते/-

2025 तक राज्य सरकारद

• • • •

स्थानः नीमराना

पर लगाये गये युजर चार्ज के विरोध में आंदोलन तेज यजर चार्ज हटाने के संबंध मं

राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ

जिंस का तुरन्त विक्रय किया जायें। यह भी आदेश दिया था कि अतिवृष्टि के कारण व्यापारी की कोई क्षति होती है तो राज्य सरकार उसका भरण शीघ्र करें। मण्डियों में आज व्यापार सुचारू रहा। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ की आज फोन पर आयोजित मीटिंग में सुझाव आया है कि राज्य सरकार को युजर चार्ज हटाने के लिये शनिवार तक का समय दे दिया जायें। यदि सकारात्मक फैसला आता है तो ठी है नहीं तो आगे आन्दोलन जारी रखा जायें।



के चेयरमैन बाबूलाल गुप्ता

सर्वसम्मति से निर्णय किया गया कि शनिवार दिनांक 30-09-

सकारात्मक सोच के साथ फैसला करें। यदि ऐसा करने मे सरकार विफल होती है तो गानस्थान स्वादा पटार्थ त्यापा संघ राजस्थान के व्यापारियों की मीटिंग आमंत्रित कर यूजर चार्ज के विरोध में आन्दोलन को अधिक तीव्र करने का फैसल लेने के लिये बाध्य होगा सरकार तुरन्त प्रभाव से विषय की गम्भीरता को देखते हुए शीड़ फैसला करें। ताकि मण्डियों में किसान व्यापारियों, उद्योगपतियों और बल्क कन्ज्यूमर को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं

करना पड़े। यदि राज्य सरकार यूज चार्ज को समाप्त नहीं करती है और इस तरह के आदेश समय रहते निकालने में विपत्त रहती है तो व्यापारियों का इन मण्डियों सं आटा, मैदा, सूजी, बेसन, दालें तेल, मसाले आदि के व्यापारिये का मण्डी के बाहर पलायन सुनिश्चित है। सैकण्डी मार्केट विभिन्न तरह के व्यापार चलाक ही आबाद किये जा सकते हैं यह बात सरकार को समझर्न चाहिए और युजर चार्ज पर शीघ्र

एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट <u>www.krnheatexchanger.com</u> पर, स्टॉक एक्सचेंजों की

की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपना बोट डाल सकें। रिमोद ई-वीटिंग/ई-वोटिंग और सबस्वों झरा वीती/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग लेने की विस्तृत प्री या

. सक्स्यों के मतवान अधिकार कट-ऑफ तिथि को कंपनी की चुकता शेयर पुंजी में उनके शेयरों के अनुपात में होंगे

का उपयोग करके लॉगिन कर सकता है और ई-वोटिंग के माध्यम से वीट कर सकता है। जिन सदस्यों की ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है, वे वार्षिक आम बैठक की सूचना में दिए गए विवरण के अनुसार 'ईमेल आईडी

Jalpur, August 26, 2025